

- दो समालीय राशियों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध जिससे इतने होते हैं कि एक राशि दूसरी को कितनी गुनी है अधिक दो राशियों की गुणात्मक तुलना अनुपात कहलाती है।
- अनुपात के प्रथम पद को पूर्व पद - तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं।

प्रतिलोमानुपात: → एक अनुपात का उत्तर पद दूसरे का पूर्व पद तथा दूसरे अनुपात का पूर्व पद पहले अनुपात का उत्तर क्षेत्र होते हैं के एक - दूसरे के प्रतिलोमानुपात और व्युत्क्रमानुपात कहलाते हैं।

Ex.

$$a:b :: b:c$$

समानुपात: → एक वस्तु में वृद्धि के साथ दूसरी वस्तु में भी वृद्धि होती है अधीत दो अनुपातों की व्यापकी का समानुपात कहते हैं।

Ex

$$a:b :: c:d , \quad a:b = c:d$$

विवरनुपात: → प्रथम राशि का द्वितीय राशि के साथ वही सम्बन्ध होता है जो उसी द्वितीय राशि का ही तीसरी राशि के साथ ही सम्बन्ध होता है।

Ex.

a, b, c विवरनुपात में हैं

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$$

$$b^2 = ac$$

* मिशन अनुपात : \rightarrow दो या दो से अधिक अनुपातों के उर्व पदों को गुण करके ज्ञात उर्व पद तथा उत्तर पदों को गुण करके नाम उत्तर पद प्राप्त किया जाता है, तो ऐसा अनुपात मिशन अनुपात कहलाता है।

Eg. $a:b; b:c$ का $c:a$ का मिशन अनुपात

$$\frac{a}{b} \times \frac{b}{c} \times \frac{c}{a} = \frac{a}{a} = 1$$

* लूटीयानुपात :- इसमें लूटीय पद को \times मानते हैं। बाह्य पदों का गुण = $(\text{मध्य पद})^2$

Eg. 4, 6 का लूटीयानुपात

$$4, 6, x$$

$$4 \times x = 6^2 \quad 4x = 36$$

$$x = \frac{36}{4} = 9$$

* चक्रवृद्धिनुपात :- इसमें चक्रवृद्धि पद को \times मानते हैं।

Eg. 3, 4, 6, x

$$3:4::6:x$$

$$3 \times x = 4 \times 6$$

$$x = \frac{4 \times 6}{3} = 8$$

* मध्यानुपात : \rightarrow दो राशियों का मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए दोनों राशियों का गुणनफल करके वर्गमुख निकालते हैं।

4, 9 का मध्यानुपात

मध्यानुपात माना गया

$$x^2 = 4 \times 9$$

$$x = \sqrt{36}$$

$$x = 6$$

सीधा अनुपात: \rightarrow जब कोई राशि उस प्रकार हो कि एक राशि के बराबर या बर्दने पर दूसरी राशि भी क्रमशः घटेगा तभी, इसमें चौथे अनुपात को ५ मानते हैं।

Eg. ज्यादा दूध - ज्यादा मूल्य
कम दूध - कम मूल्य

Eg. २० लीटर दूध का मूल्य ₹१०० रु हो तो ५ लीटर दूध का मूल्य किसी जिए

माना ५ लीटर दूध का मूल्य x रु

$$20 : 5 :: 100 : x$$

$$20 \times x = 5 \times 100$$

$$x = \frac{5 \times 100}{20} = 25 \text{ रु}$$

अर्थात् ५ लीटर दूध का मूल्य = ₹२५।

* **विलोमानुपात:** यदि दो राशियाँ इस प्रकार हो कि एक राशि के बर्दने पर दूसरी राशि घटे तथा दूसरी राशि के बर्दने पर पहली राशि घटे, एसे प्रकार में राशियों को विलोमानुपात में लिखते हैं।

एक दबावावास में डब्बालों के लिए ५० ट्रिकी भी आजान सामग्री है तो ४० डब्बों के १६ ट्रिकों के लिए कितनी होगी,

Eg. ५० : ४० :: १६ : x

$$x = \frac{40 \times 16}{50} = \frac{4 \times 16}{5} = 64 \frac{4}{5}$$

$$5 \times 5 = 25 \text{ ट्रिकी}$$